

फा.सं.7(1)/2013-ले.क्र.

भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संसद भवन,
नई दिल्ली।

दिनांक: 04.09.2013

सेवा में

मैसर्स

निविदा सूचना

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय को रबड़ की मोहरों की आपूर्ति के लिए कोटेशन।

महोदय,

अनुबंध में दिए विवरण के अनुसार संसदीय कार्य मंत्रालय को एक वर्ष की अवधि के लिए रबड़ की मोहरों की आपूर्ति हेतु संविदा करने के लिए निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर मोहरबंद कोटेशन आमंत्रित की जाती हैं।

1. संविदाकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को जब भी बुलाया जाए इस मंत्रालय में आना पड़ेगा। मोहरों की आपूर्ति आदेश मिलने की तारीख से तीन दिनों के भीतर करनी पड़ेगी। तथापि, तत्काल प्रकृति की मोहरों की आपूर्ति उसी दिन करनी पड़ेगी।
2. संविदाकार को संविदा के सम्यक निष्पादन के लिए बयाना राशि-सहित-प्रतिभूति के रूप में 'वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक के रूप में ₹.1000/- (रूपये एक हजार केवल) की राशि जमा करनी पड़ेगी। बयाना राशि-सहित-प्रतिभूति की राशि इस मंत्रालय के पूर्णतः संतुष्ट होने पर संविदा की समाप्ति के पश्चात संविदाकार को लौटा दी जाएगी। इस प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. संविदाकार को भुगतान कार्य के सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के पश्चात किया जाएगा।
4. यदि संविदाकार का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो इस मंत्रालय द्वारा संविदा को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
5. यदि आवश्यक हुआ तो परस्पर करार पाई निबंधन और शर्तों पर संविदा की अवधि को आगे और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

2. इच्छुक बोलीदाता मुझे संबोधित अपनी विस्तृत कोटेशन मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं जिस पर स्पष्ट रूप से 'रबड़ की मोहरों की आपूर्ति के लिए कोटेशन' लिखा होना चाहिए। कोटेशनों को दिनांक 25.09.2013 को अपराह्न 3.00 बजे तक कमरा नं.93, संसद भवन, नई दिल्ली में रखी टेंडर पेटी में जमा किया जा सकता है।

3. इस संबंध में टेंडरदाता कृपया निम्नलिखित बिंदुओं को नोट कर लें:-

(क) टेंडरदाताओं ने यदि अन्य सरकारी कार्यालयों में ऐसे ही कार्य किए हैं तो उसका विवरण भी देना चाहिए।

(ख) विनिर्दिष्ट तारीख और समय के पश्चात प्राप्त हुए टेंडरों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ग) मंत्रालय के पास किसी कोटेशन को बिना कारा बताए पूर्णतः या अंशतः अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(घ) टेंडरदाताओं द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं। प्रतिनिधियों को इस निमित्त एक पत्र लाना होगा।

(ङ.) टेंडरदाता फर्म को अपना टी.आई.एन., पी.ए.एन. नंबर इत्यादि अवश्य लिखना चाहिए अन्यथा टेंडर पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. कोटेशनों को दिनांक 25.09.2013 को अपराह्न 3.30 बजे कमरा नं.92, संसद भवन, नई दिल्ली में खोला जाएगा।

भवदीय,

(रामेश्वर प्रसाद)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. एन.आई.सी. प्रकोष्ठ को इस अनुरोध के साथ कि दर कोटेशन को मंत्रालय की वैबसाइट पर प्रदर्शित करें।

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

क्र.सं.	कार्य का वर्णन	आकार	दरें (रूपये)
01.	रबड़ की मोहरें (अंग्रेजी/हिंदी) द्विभाषी	पहली पंक्ति के लिए दर	
		प्रत्येक अतिरिक्त पंक्ति के लिए दर	
02.	सेल्फ इंक वाली मोहरें	साधारण आकार (6 पंक्तियों तक)	
		बड़ी (6 पंक्तियों से अधिक)	
03.	प्री-इंक/एस.यू.एन. मोहरें	विशेष प्रकार की (मद्रास मेक) सामान्य आकार	
04.	वृत्ताकार मोहरें (चारों ओर बार्डर सहित)		
05.	हस्ताक्षर वाली रबड़ की मोहरें		
06.	31 दिन, 12 मास और 10 वर्ष वाली रिवोल्विंग डेट मशीन/मोहर जिसमें कार्यालय का पूरा नाम हो।		
07.	डेटर (तारीख वाली मोहर)		
08.	ब्रास सील		
09.	ब्रास लैटर (एक्रेलिक शीट की लागत सहित)	अंग्रेजी - 1"	
		अंग्रेजी - 2"	
		अंग्रेजी - 3"	
		अंग्रेजी - 4"	
		अंग्रेजी - 5"	
		अंग्रेजी - 6"	
		हिंदी - 1"	
		हिंदी - 2"	
		हिंदी - 3"	
		हिंदी - 4"	
10.	एक्रेलिक शीट - 5 मिमी (ब्रास लैटर्स को चिपकाने के लिए)	प्रति इंच	
11.	एक्रेलिक शीट फ्रेम स्लाइडर	20" X 6"	
12.	प्लास्टिक नेम प्लेट लैटर्स के रूप में गोल्डन स्टिकर्स सहित	12" X 4" आकार	
		12" X 8" आकार	
13.	प्लास्टिक नेम प्लेट गोल्डन कलर में अंकित लैटर्स सहित	12" X 4" आकार	
		12" X 8" आकार	